

तुरंत रिलीज के लिए

आग से सुरक्षा सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अक्टूबर, 2021) – 3 से 9 अक्टूबर तक, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services), सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और कार्यक्रम के प्रायोजक एनब्रिज गैस (Enbridge Gas), कम्युनिटी को आग से सुरक्षित रहने और इसकी तैयारी करने में जानकारी देने में मदद के लिए आग से सुरक्षा सप्ताह (Fire Prevention Week) मना रहे हैं। जैसे कि नैशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (एन.एफ.पी.ए.) (National Fire Protection Association) (NFPA) के द्वारा घोषणा की गई है, इस वर्ष का विषय है, “फायर संबंधी सुरक्षा की आवाजों के बारे में जानें!” और इसका उद्देश्य, धुएं के और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) अलार्मों की अलग-अलग आवाजों के बारे में जागरूक करना है।

आग से सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण आवाजों के बारे में जानने से, ज़िंदगी बचाने में मदद मिल सकती है। एक बार चीं-चीं की आवाज़, दो बार चीं-चीं की आवाज़ और बीप्स के बीच अंतर को समझकर, आप सभी स्थितियों के लिए तैयार रहेंगे।

- लगातार तीन बार तेज़ बीप्स का मतलब है कि धुआं उठ रहा है या आग लगी है। घर से बाहर निकलें, बाहर ही रहें और 9-1-1 पर फोन करें
- हर 30 या 60 सेकंड्स में एक बार चीं-चीं की आवाज़ का मतलब है कि बैटरी खत्म होने वाली है और उसे बदलना ज़रूरी है
- बैटरी बदलने के बाद लगातार चीं-चीं की आवाज़ का मतलब है कि अलार्म खराब हो गया है और यूनिट बदलना ज़रूरी है। हर 10 वर्षों में धुएं के सभी अलार्म बदलें

सुनिश्चित करें कि धुएं के और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) अलार्म, संवेदी या शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों सहित, परिवार के सभी मेम्बर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। जो व्यक्ति सुनने योग्य अलार्म की आवाज़ नहीं सुन सकते, उन्हें एमरजेंसी में सूचित करने के लिए विजुअल अलार्म या विजुअल अलर्टिंग सिस्टम लगाए जाने चाहिए।

आग से सुरक्षा सप्ताह के दौरान, सुरक्षा संबंधी सुझावों और इस बारे में जानकारी के लिए कि सुरक्षा की आवाजों की पहचान कैसे करनी है, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज को [Twitter](#), [Facebook](#), और [YouTube](#) पर फॉलो करें।

ब्रैम्पटन की कम्युनिटी के अंदर आग से सुरक्षा में लगातार उदारतापूर्वक सहयोग के लिए, ब्रैम्पटन फायर प्रीवेंशन वीक के प्रायोजक, एनब्रिज गैस का धन्यवाद। हर कोई खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, आग से सुरक्षा के आसान लेकिन महत्वपूर्ण काम कर सकता है।

हवाले

“आग से जारी सुरक्षा और जानकारी, ब्रैम्पटन को स्वस्थ और सुरक्षित शहर बनाने में योगदान देती है। आग से सुरक्षा के इस सप्ताह, मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षा की आवाज़ों से परिचित हों।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सुरक्षा आपसे शुरू होती है। मैं निवासियों को सलाह देती हूँ कि अपनी सुरक्षा के बारे में अधिक सक्रिय रहें, सुरक्षा की आवाज़ों के बारे में जानें और अपने धुएँ के और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्मों का रखरखाव करें क्योंकि वे ज़िंदगियाँ बचाते हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“धुएँ के अलार्म ज़िंदगियाँ बचाते हैं और जब वे अच्छी तरह से इंस्टॉल किए होते हैं और उनका रखरखाव होता है, तो वे आग से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धुएँ के और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्मों की अलग-अलग आवाज़ों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, ताकि आप उचित कार्रवाई कर सकें। घर के हर व्यक्ति के लिए अपने अलार्मों की आवाज़ों को समझने और यह जानने की जरूरत है कि प्रतिक्रिया कैसे करनी है।”

- बिल बोएस (Bill Boyes), फायर चीफ, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca